



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 621)

पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2011

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

4 नवम्बर 2011

सं0 2292—ईख प्रबंधक एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि० इकाई सुगौली द्वारा सूचित किया गया है कि पहाड़पुर अंचल अंतर्गत ग्राम मनकररीया (थाना नं० 5) एवं ग्राम—रायकररीया (थाना नं० 114) उनको परम्परागत रूप में आरक्षित है परन्तु टंकण भूलवश वर्ष 2011-12 के लिए निर्गत अपरम्परागत आरक्षण आदेश में ग्राम मनकररीया (थाना नं० 5) सटहां मुक्त क्षेत्र में भी भूलवश अंकित हो गया है एवं ग्राम रायकररीया (थाना नं० 114) मंझौलिया चीनी मिल के लिए किये गये अपरम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची में भी सम्मिलित हो गया है।

चीनी मिल से प्राप्त उपरोक्त अभ्यावेदन एवं संचिका पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त आदेश दिया जाता है कि चूंकि ग्राम मनकररीया (थाना नं०-5) एवं ग्राम रायकररीया (थाना नं० 114) सुगौली चीनी मिल को आरक्षित है। अतः विभागीय पत्रांक 2153, दिनांक 29 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत मंझौलिया चीनी मिल के लिए अपरम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची में अंचल पहाड़पुर अंतर्गत क्रमांक 68 पर अंकित ग्राम रायकररीया (राजस्व थाना संख्या 114) एवं संलग्न गोविन्दगंज क्षेत्र अंतर्गत मुक्त ग्रामों की सूची में क्रमांक-05 पर अंकित ग्राम मनकररीया (राजस्व थाना नं० 5) को विलोपित समझा जाए।

आदेश से,  
विमलानन्द झा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 621-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>